

14P/231/4

Question Booklet No.....

(To be filled up by the candidate by blue/black ball-point pen)

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Roll No.

(Write the digits in words)

Serial No. of OMR Answer Sheet

Day and Date

(Signature of Invigilator)

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES(Use only **blue/black ball-point pen** in the space above and on both sides of the Answer Sheet)

1. Within 10 minutes of the issue of the Question Booklet, check the Question Booklet to ensure that it contains all the pages in correct sequence and that no page/question is missing. In case of faulty Question Booklet bring it to the notice of the Superintendent/Invigilators immediately to obtain a fresh Question Booklet.
2. Do not bring any loose paper, written or blank, inside the Examination Hall *except the Admit Card without its envelope*.
3. A separate Answer Sheet is given. *It should not be folded or mutilated. A second Answer Sheet shall not be provided. Only the Answer Sheet will be evaluated.*
4. Write your *Roll Number and Serial Number of the Answer Sheet* by pen in the space provided above.
5. **On the front page of the Answer Sheet, write by pen your Roll Number in the space provided at the top, and by darkening the circles at the bottom. Also, wherever applicable, write the Question Booklet Number and the Set Number in appropriate places.**
6. No overwriting is allowed in the entries of Roll No., Question Booklet No. and Set No. (if any) on OMR sheet and also Roll No. and OMR Sheet No. on the Question Booklet.
7. Any change in the aforesaid entries is to be verified by the invigilator, otherwise it will be taken as unfair means.
8. Each question in this Booklet is followed by four alternative answers. *For each question, you are to record the correct option on the Answer Sheet by darkening the appropriate circle* in the corresponding row of the Answer Sheet, by ball-point pen as mentioned in the guidelines given on the first page of the Answer Sheet.
9. For each question, darken only one circle on the Answer Sheet. If you darken more than one circle or darken a circle partially, the answer will be treated as incorrect.
10. *Note that the answer once filled in ink cannot be changed. If you do not wish to attempt a question, leave all the circles in the corresponding row blank (such question will be awarded zero mark).*
11. For rough work, use the inner back page of the title cover and the blank page at the end of this Booklet.
12. Deposit *only the OMR Answer Sheet* at the end of the Test.
13. You are not permitted to leave the Examination Hall until the end of the Test.
14. If a candidate attempts to use any form of unfair means, he/she shall be liable to such punishment as the University may determine and impose on him/her.

[उपर्युक्त निर्देश हिन्दी में अन्तिम आवरण-पृष्ठ पर दिये गए हैं।]

[No. of Printed Pages : 44+2]

14P/231/4

No. of Questions/प्रश्नों की संख्या : 150

Time/समय : 2 Hours/घण्टे

Full Marks/पूर्णांक : 450

Note : (1) Attempt as many questions as you can. Each question carries **3** marks. **One** mark will be deducted for each incorrect answer. Zero mark will be awarded for each unattempted question.

अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्रश्न **3** अंक का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तांक शून्य होगा।

(2) If more than one alternative answers seem to be approximate to the correct answer, choose the closest one.

यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हों, तो निकटतम सही उत्तर दें।

1. Anuruddhācariya is known for his work entitled

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| (1) Abhidhammattha-samuccayo | (2) Abhidhammatthasaṅgaho |
| (3) Abhidhammāvatāro | (4) Abhidhammappaveso |

अनुरुद्धाचरिय अपने उस ग्रन्थ के लिये प्रसिद्ध हैं, जिसका शीर्षक है

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (1) अभिधम्मत्थसमुच्चयो | (2) अभिधम्मत्थसंगहो |
| (3) अभिधम्मावतारो | (4) अभिधम्मप्पवेसो |

(142)

1

(P.T.O.)

2. Anuruddhācariya flourished in a period extending

- (1) AD 11th-12th centuries (2) AD 3rd-4th centuries
(3) AD 4th-5th centuries (4) AD 7th-8th centuries

अनुरुद्धाचरिय उस युग में पैदा हुए और लेखन कार्य किया, जो फैला था

- (1) ईस्वी ग्यारहवीं-बारहवीं सदियों में (2) ईस्वी तीसरी-चौथी सदियों में
(3) ईस्वी चौथी-पाँचवीं सदियों में (4) ईस्वी सातवीं-आठवीं सदियों में

3. Among the four divisions of Citta, the third one happens to be

- (1) Rūpavacara (2) Arupāvacara (3) Kamāvacara (4) Lokuttara
चित्त के चार विभागों में, तीसरा विभाग है

- (1) रूपावचर (2) अरूपावचर (3) कामावचर (4) लोकुत्तर

4. In the explanation of the Lokuttara Cittas, the term 'Ariya' stands for

- (1) one belonging to the Aryan Race
(2) one who is a Lord (land-owner)
(3) one who belongs to the category of Attha-purisa-puggalas
(4) a Putthujjana

लोकुत्तर चित्तों की व्याख्या में 'अरिय' पद जिस अर्थ में प्रयुक्त है, वह है

- (1) वह जो अरिय जनजाति के अर्थ में है (2) वह जो जमींदार या भूमिपति है
(3) वह जो अट्टपुरिस-पुग्गल की श्रेणी में है (4) पुथुज्जन

9. Identify the Second Lokuttara-vipāka-citta from the list given below

- (1) Arahatta-phala-citta (2) Anāgāmi-phala-citta
(3) Sotapatti-phala-citta (4) Sakadāgāmi-phala-citta

नीचे दी हुई सूची में से दूसरे लोकुत्तर-विपाक-चित्त की पहचान कीजिये

- (1) अरहत-फल-चित्त (2) अनागामि-फल-चित्त
(3) सोतापति-फल-चित्त (4) सकदागामि-फल-चित्त

10. The number of Arūpavacara-Kusala-Vipāka-Kriyā-Cittas is

- (1) 20 (twenty) (2) 15 (fifteen) (3) 12 (twelve) (4) 10 (ten)

अरूपावचर-कुशल-विपाक-क्रिया-चित्तों की संख्या है

- (1) 20 (बीस) (2) 15 (पंद्रह) (3) 12 (बारह) (4) 10 (दस)

11. The First Arūpavacara-Kusala-Citta happens to be

- (1) Viññāṇaṃcayatana-Kusala-Citta
(2) Akimcaññāyatana-Kusala-Citta
(3) Nevasaññānāsaññāyatana-Kusala-Citta
(4) Ākāśaṇaṃcayatana-Kusala-Citta

पहले अरूपावचर-कुशल-चित्त की पहचान कीजिये

- (1) विज्ञानांशयतन-कुशल-चित्त (2) आकिंचञ्जायतन-कुशल-चित्त
(3) नेवसञ्जानासञ्जायतन-कुशल-चित्त (4) आकासानंशयतन-कुशल-चित्त

12. One of the Paramatthas happens to be 52 (fifty-two) in number. Identify it from the list below

- (1) Citta (2) Cetasika (3) Rūpa (4) Nibbāna

परमार्थों में से एक की संख्या 52 (बावन) है। नीचे दी हुई सूची से उसकी पहचान कीजिये

- (1) चित्त (2) चेतसिक (3) रूप (4) निब्बान

13. The first Gāthā under Cetasika-saṅgaha-vibhāga declares five characteristics of the Cetasika. Identify the last one

- (1) Cetoyuttam (2) Ekuppādam (3) Ekanirodham (4) Ekālaṃbanam

चेतसिक-संगह-विभाग के अन्तर्गत जो प्रथम गाथा है वह चेतसिक के पाँच लक्षण बताती है। उनमें से अन्तिम की पहचान कीजिये

- (1) चेतोयुत्तं (2) एकुप्पादं (3) एकनिरोधं (4) एकालंबनं

14. In the list of the Sabbacittasādharaṇa-cetasikas, the first one happens to be

- (1) Manasikāro (2) Vedanā (3) Ekaggatā (4) Phasso

सब्बचित्तसाधारण-चेतसिकों की सूची में, प्रथम चेतसिक है

- (1) मनसिकारो (2) वेदना (3) एकगता (4) फस्सो

15. The number of Pakiṇṇaka Cetasikas is

- (1) 6 (six) (2) 5 (five) (3) 8 (eight) (4) 7 (seven)

पकिण्णकः चेतसिकों की संख्या है

- (1) 6 (छः) (2) 5 (पाँच) (3) 8 (आठ) (4) 7 (सात)

22. The answer to the question (Ko Imam Pathavim Vijessati – who shall win this earth) is

- (1) Puthujjano (2) Sekho (3) Upāsako (4) Bālo

इस प्रश्न (को इमं पठविं विजेस्सति == कौन इस पृथ्वी को जीतेगा) का उत्तर है

- (1) पुथुज्जनो (2) सेखो (3) उपासको (4) बालो

23. The circle of birth and death is Digho (long) for

- (1) Sotapanno (2) Arahanto (3) Ariyo (4) Bālo

संसार इसके लिये दीघो (लम्बा) है

- (1) सोतापन्नो (2) अरहन्तो (3) अरियो (4) बालो

24. Identify the option depicting the correct and exact order of the Suttas of the Majjhima Nikāya

- (1) Sabbāsava Sutta, Vattha Sutta, Sammādiṭṭhi Sutta, Pāsarāsi Sutta

- (2) Pāsarāsi Sutta, Sammādiṭṭhi Sutta, Vattha Sutta, Sabbāsava Sutta

- (3) Sammādiṭṭhi Sutta, Sabbāsava Sutta, Vattha Sutta, Pāsarāsi Sutta

- (4) Vattha Sutta, Pāsarāsi Sutta, Sabbāsava Sutta, Sammādiṭṭhi Sutta

मज्झिम निकाय के सुत्तों में सही और वही क्रम दर्शाने वाले विकल्प की पहचान कीजिये

- (1) सब्बासव सुत्त, वत्थ सुत्त, सम्मादिट्ठि सुत्त, पासरासि सुत्त

- (2) पासरासि सुत्त, सम्मादिट्ठि सुत्त, वत्थ सुत्त, सब्बासव सुत्त

- (3) सम्मादिट्ठि सुत्त, सब्बासव सुत्त, वत्थ सुत्त, पासरासि सुत्त

- (4) वत्थ सुत्त, पासरासि सुत्त, सब्बासव सुत्त, सम्मादिट्ठि सुत्त

25. The Sabbāsava Sutta was delivered by the Gautam Buddha at
 (1) Vesāli (2) Sāvattihī (3) Rājagaha (4) Kusināra
 सब्बासव सुत्त की देशना गौतम बुद्ध ने इस स्थान पर की
 (1) वेसाली (2) सावत्थी (3) राजगह (4) कुसीनारा
26. In the title of the Sabbāsava Sutta, the word 'Āsava' stands for
 (1) Conflict (2) Avarice (3) Greed (4) Impurity
 सब्बासव सुत्त में 'आसव' शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त है
 (1) टकराव (2) द्वेष (3) लोभ (4) चित्त-मल
27. In the Sabbāsava Sutta, the Buddha's discourse was directed towards
 (1) the Laity (2) the Monks (3) the Nuns (4) the Novices
 सब्बासव सुत्त में बुद्ध की देशना इस ओर निर्देशित थी
 (1) उपासक/उपासिका (2) भिक्खु (3) भिक्खुनी (4) सामणेर/सामणेरी
28. The main content of the Sabbāsava Sutta relates to
 (1) Āsavanam Vutthāpanam (2) Āsavānam Vuddhi
 (3) Āsavānam Patthāpanam (4) Āsavānam Khayo
 सब्बासव सुत्त की मुख्य विषयवस्तु इससे सम्बन्धित है
 (1) आसवानं बुद्धापनं (2) आसवानं बुद्धि (3) आसवानं पट्ठापनं (4) आसवानं खयो
29. The number of methods taught by the Buddha to deal with the Āsavas is
 (1) 10 (ten) (2) 9 (nine) (3) 8 (eight) (4) 7 (seven)

आसवों से निपटने के लिये गौतम बुद्ध ने इतने तरीके बताये थे

- (1) 10 (दस) (2) 9 (नौ) (3) 8 (आठ) (4) 7 (सात)

30. The order in which the Sabbāsava Sutta has been compiled in the Majjhima Nikāya is

- (1) 1 (one) (2) 2 (two) (3) 3 (three) (4) 4 (four)

मज्झिम निकाय में सब्बासव सुत्त इस क्रम में संकलित है

- (1) 1 (एक) (2) 2 (दो) (3) 3 (तीन) (4) 4 (चार)

31. The order in which the Vinodana method has been set in the Sabbāsava Sutta happens to be

- (1) seventh (2) sixth (3) fifth (4) fourth

सब्बासव सुत्त में विनोदना तरीका इस क्रम में रखा गया है

- (1) सातवाँ (2) छठा (3) पाँचवाँ (4) चौथा

32. The order in which the Sammāditthi Sutta has been compiled in the Majjhima Nikāya is

- (1) tenth (2) ninth (3) eighth (4) seventh

मज्झिम निकाय में सम्मादिट्ठि सुत्त इस क्रम में संकलित है

- (1) दसवाँ (2) नौवाँ (3) आठवाँ (4) सातवाँ

33. The word 'Ditthi' as compounded in the title of the Sammāditthi Sutta stands for

- (1) eye-sight (2) spiritual view (3) eye-opening (4) eye-covering

सम्मादिट्ठि सुत्त के शीर्षक में 'दिट्ठि' शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त है

- (1) आँखों की रोशनी (2) आध्यात्मिक मत (3) आँख खोलना (4) आँख ढँकना

34. The Sammādiṭṭhi Sutta was delivered to the Monks by

- (1) the Buddha (2) Bhadanta Ānanda
(3) Bhadanta Sāriputta (4) Bhadanta Moggallānā

सम्मादिट्ठि सुत्त भिक्खुओं को इनके द्वारा उपदेशित किया गया

- (1) गौतम बुद्ध (2) भदन्त आनन्द (3) भदन्त सारिपुत्त (4) भदन्त मोग्गल्लाना

35. The item number of 'Kammaṃ ca Kammamūlaṃ ca Pajānāti' in the contents of the Sammādiṭṭhi Sutta happens to be

- (1) the first (2) the second (3) the third (4) the fourth

सम्मादिट्ठि सुत्त की विषयवस्तु में 'कम्मं च कम्ममूलं च पजानाति' का यह क्रम है

- (1) पहला (2) दूसरा (3) तीसरा (4) चौथा

36. The last item in the contents of the Sammādiṭṭhi Sutta happens to be

- (1) Āsava-samudaya-nirodham Pajānāti
(2) Viññāṇa-samudaya-nirodham Pajānāti
(3) Saṃsāra-samudaya-nirodham Pajānāti
(4) Avijjā-samudaya-nirodham Pajānāti

सम्मादिट्ठि सुत्त की विषयवस्तु में अन्तिम क्रम यह है

- (1) आसव-समुदय-निरोधं पजानाति (2) विञ्जाण-समुदय-निरोधं पजानाति
(3) संसार-समुदय-निरोधं पजानाति (4) अविज्जा-समुदय-निरोधं पजानाति

37. The additional Osānagāthāyo appear at end of the Sutta known as

- (1) Sabbāsava (2) Vattha (3) Sammādiṭṭhi (4) Pāsarāsi

इस सुत्त के अन्त में ओसान-गाथायो जुड़ी हुई हैं

- (1) सब्बासव (2) वत्थ (3) सम्मादिट्ठि (4) पासरासि

38. The second item in the contents of the Sammādiṭṭhi Sutta happens to be

- (1) Kammaṃ ca Kamma-mūlaṃ ca Pajānāti
(2) Āhāra-samudaya-nirodhaṃ Pajānāti
(3) Ariyasaccāni Pajānāti
(4) Jāti-samudaya-nirodhaṃ Pajānāti

सम्मादिट्ठि सुत्त की विषयवस्तु में द्वितीय क्रम यह है

- (1) कम्मं च कम्म-मूलं च पजानाति (2) आहार-समुदय-निरोधं पजानाति
(3) अरियसच्चानि पजानाति (4) जाति-समुदय-निरोधं पजानाति

39. Rammakassa Brāhmaṇassa Assamo was the venue of the delivery of the Buddha's Discourse known as

- (1) Mūlapariyāya Sutta (2) Sabbāsava Sutta
(3) Vattha Sutta (4) Pāsarāsi Sutta

रम्मकस्स ब्राह्मणस्स अस्समो स्थल पर गौतम बुद्ध द्वारा यह सुत्त उपदेशित किया गया

- (1) मूलपरियाय सुत्त (2) सब्बासव सुत्त (3) वत्थ सुत्त (4) पासरासि सुत्त

40. The Gautam Buddha reached Pubbakotthaka for the purpose of

- (1) Jalaṃ Pātum (2) Jalaṃ Gaṇhitum
(3) Gattāni Parisimcitum (4) Mukhaṃ Pakkhālitum

गौतम बुद्ध इस उद्देश्य से पुब्बकोट्टक गये

- (1) जलं पातुं (2) जलं गण्हितुं (3) गतानि परिसिंचितुं (4) मुखं पक्खालितुं

41. The first thing that the Sannipatita Bhikkhus (assembled Monks) have to do is

- (1) Tuṅhibhavo (2) Dhammi-katha

- (3) Rāja-kathā (4) Paja-katha

सन्निपतित भिक्खुओं को जो सर्वप्रथम कार्य करना होता है, वह है

- (1) तुण्हीभावो (2) धम्मी-कथा (3) राज-कथा (4) पजा-कथा

42. The number of Pariyesanās referred to by the Gautam Buddha in the Pāsarasī Sutta is

- (1) two (2) one (3) four (4) three

पासरासि सुत्त में गौतम बुद्ध ने इतनी संख्या में परियेसनाओं की ओर संकेत किया है

- (1) दो (2) एक (3) चार (4) तीन

43. In the context of the Bodhisatta-pariyesanā, Bodhisatta Siddhattha first visited

- (1) Uddaka Rāmaputta (2) Ālāra Kālāma

- (3) Pañcavaggiyā Pabbajitas (4) Uruvelā Senanīgamo

बोधिसत्त-परियेसना के सन्दर्भ में, बोधिसत्त सिद्धत्थ जिसके पास सबसे पहले पहुँचे, वह था

- (1) उदक रामपुत्त (2) आळार कालाम

- (3) पंचवग्निया पब्वजिता (4) उरुवेला सेनानीगामो

44. When the Gautam Buddha was reluctant to preach His Dhamma, who made request to do so?

- (1) Sakko Devānaṃ Indo (2) Paṭhavi Devata
(3) Brahmā Sahampati (4) Antalikkhika Devata

जब गौतम बुद्ध अपने धम्म की देशना करने को अनिच्छुक थे, जिसने इसके लिये उनसे निवेदन किया

- (1) सक्को देवानं इन्दो (2) पठवी देवता
(3) ब्रह्मा सहंपति (4) अन्तलिक्खिका देवता

45. The Gautam Buddha uttered the words 'Rāga-dosa-paretehi Nāyaṃ Dhammo Susambudho' when he

- (1) Reached Uruvelā Senānigamo
(2) Sujātā offered milk gruel to Him
(3) Just after the attainment of Bodhi
(4) While delivering His First Discourse at Isipatana Migadāva

गौतम बुद्ध ने 'राग-दोस-परेतेहि नायं धम्मो सुसम्बुधो' शब्द उस समय उच्चारित किये जब

- (1) उरुवेला सेनानीगामो पहुँचे
(2) सुजाता ने उन्हें पायस का उपहार दिया
(3) बोधि-प्राप्ति के तुरन्त बाद
(4) इसिपतन मिगदाव में पहला उपदेश देते समय

46. The Gautam Buddha decided to deliver His First Sermon to

- (1) the Paṃcavaggiyā Pabbajitā (2) Uddaka Rāmaputta
(3) Ālāra Kalāmo (4) Sāriputta Moggallānā

गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इन्हें देने का निर्णय लिया

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (1) पंचवग्निया पब्बजिता | (2) उदक रामपुत्त |
| (3) आळार कालाम | (4) सारिपुत्त मोग्गल्लाना |

47. The earliest name of Pali was

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) Kosali | (2) Magadhī |
| (3) Addha-Māgadhī | (4) Soraseni |

पालि का प्राचीनतम नाम था

- | | | | |
|-----------|-----------|----------------|-------------|
| (1) कोसली | (2) मागधी | (3) अङ्ग-मागधी | (4) सोरसेनी |
|-----------|-----------|----------------|-------------|

48. The most accepted root-word from which Pali word is derived, is

- | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|
| (1) Patha | (2) Pātali | (3) Palli | (4) Pariyāya |
|-----------|------------|-----------|--------------|

अधिसंख्य भान्य मूल-शब्द जिससे पालि शब्द व्युत्पन्न माना जाता है, वह है

- | | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|
| (1) पाठ | (2) पाटलि | (3) पल्लि | (4) परियाय |
|---------|-----------|-----------|------------|

49. One of the methods of compiling the words of the Buddha is to put them into nine Aṅgas (Aṅga-vasena). Name the first one among them

- | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| (1) Geyya | (2) Sutta | (3) Vedalla | (4) Gāthā |
|-----------|-----------|-------------|-----------|

बुद्ध के वचनों को संकलित करने का एक ऐसा भी प्रकार था, जिसके अनुसार उनको नौ अंगों (अंग-वसेन) में रखा गया। उनमें से प्रथम का नामोल्लेख कीजिये

- | | | | |
|-----------|-----------|------------|----------|
| (1) गेय्य | (2) सुत्त | (3) वेदल्ल | (4) गाथा |
|-----------|-----------|------------|----------|

50. One of the methods of compiling the words of the Buddha is to put them in Dhamma-kkhandhas (Dhamma-kkhandha-vasena). The number of Dhamma-kkhandhas is

- (1) eight thousands (2) eighty-four thousands
(3) ten thousands (4) eighty thousands

बुद्ध के वचनों को संकलित करने का एक ऐसा भी प्रकार था, जिसके अनुसार उनको धम्मक्खन्धों (धम्मक्खन्ध-वसेन) में रखा गया। धम्मक्खन्धों की संख्या बतायें

- (1) आठ हजार (2) चौगसी हजार (3) दस हजार (4) अस्सी हजार

51. The latest text of the Vinaya Pitaka, according to historians, is

- (1) Mahāvaggo (2) Cullavaggo
(3) Parivāro (4) Bhikkhu-vibhaṅgo

इतिहासकारों के अनुसार, विनय पिटक का अन्तिम संकलित ग्रन्थ है

- (1) महावग्गो (2) चुल्लवग्गो (3) परिवारो (4) भिक्खु-विभंगो

52. The Sutta Pitaka is divided into Nikāyas numbering

- (1) 8 (eight) (2) 7 (seven) (3) 6 (six) (4) 5 (five)

सुत्त पिटक को निकायों में विभक्त किया गया है, उन निकायों की संख्या है

- (1) 8 (आठ) (2) 7 (सात) (3) 6 (छः) (4) 5 (पाँच)

53. One of the texts of the Abhidhamma Pitaka was taught (authored) by an Ācariya. Name the Acariya

- (1) Moggaliputta Tissa (2) Buddhadatta
(3) Buddhaghosa (4) Dhammapāla

अभिधम्म पिटक का एक पकरण (ग्रन्थ) किसी आचार्य के द्वारा देशित (विरचित) था। उस आचार्य का नाम बतायें

- (1) मोग्गलिपुत्त तिस्स (2) बुद्धदत्त (3) बुद्धघोष (4) धम्मपाल

54. The number of texts which were arranged together to form the Khuddaka Nikaya, according to Sinhalese tradition, is

- (1) 20 (twenty) (2) 18 (eighteen) (3) 15 (fifteen) (4) 10 (ten)

सिंहली परम्परा के अनुसार, कुछ ग्रन्थों को एक साथ संकलित करके खुद्दक निकाय तैयार किया गया है, उनकी संख्या है

- (1) 20 (बीस) (2) 18 (अठारह) (3) 15 (पन्द्रह) (4) 10 (दस)

55. The number of Suttas compiled together under the Dīgha Nikāya, is

- (1) 34 (thirty-four) (2) 35 (thirty-five) (3) 36 (thirty-six) (4) 40 (forty)

दीघ निकाय में संकलित किये गये सुत्तों की संख्या है

- (1) 34 (चौतीस) (2) 35 (पैंतीस) (3) 36 (छत्तीस) (4) 40 (चालीस)

56. Sutta Nipāta is a text compiled under

- (1) Dīgha Nikāyo (2) Majjhima Nikayo
(3) Khuddaka Nikāyo (4) Aṅguttara Nikāyo

सुत्त निपात इसके अन्तर्गत संकलित किया गया है

- (1) दीघ निकायो (2) मज्झिम निकायो (3) खुद्दक निकायो (4) अंगुत्तर निकायो

57. The Aṅguttara Nikāyo is divided into

- (1) 12 (twelve) Nipātas (2) 11 (eleven) Nipātas
(3) 10 (ten) Nipātas (4) 9 (nine) Nipātas

अंगुत्तर निकायो कितने भागों में विभाजित है?

- (1) 12 (बारह) निपात (2) 11 (ग्यारह) निपात (3) 10 (दस) निपात (4) 9 (नौ) निपात

58. The Assalayana Sutta is compiled under

- (1) Majjhima Nikayo (2) Samyutta Nikayo
(3) Anguttara Nikayo (4) Digha Nikayo

अस्सलायन सुत्त किसके अन्तर्गत संकलित है?

- (1) मज्झिम निकायो (2) संयुत्त निकायो (3) अंगुत्तर निकायो (4) दीघ निकायो

59. The details of the Pathamā Saṅgīti are available in

- (1) Mahāparinibbāna Suttaṃ (2) Cullavaggo
(3) Mahāvaggo (4) Kathavatthu

पठमा संगीति के विवरण किसमें उपलब्ध हैं?

- (1) महापरिनिब्बान सुत्त (2) चुल्लवग्गो (3) महावग्गो (4) कथावत्थु

60. The authorship of the Nettipakarāṇa is ascribed to

- (1) Bhikkhu Moggallāno (2) Bhikkhu Kaccāno
(3) Bhikkhu Ānando (4) Bhikkhu Sāriputto

नेत्तिपकरण की रचनाकारिता को इसके नाम किया जाता है

- (1) भिक्खु मोग्गल्लानो (2) भिक्खु कच्चानो (3) भिक्खु आनन्दो (4) भिक्खु सारिपुत्तो

61. The status of the Milindapañho in Pāli literature, according to the Sinhalese tradition, happens to be

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) Tipitaka literature | (2) Anupitaka literature |
| (3) Pre-Atthakathā literature | (4) Post-Atthakatha literature |

सिंहली परम्परा के अनुसार मिलिन्दपञ्चो की वस्तुस्थिति यह है

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (1) तिपिटक सुत्त | (2) अनुपिटक पकरण |
| (3) पूर्व-अट्टकथा शास्त्र | (4) पश्च-अट्टकथा शास्त्र |

62. Siddhattha left his household in search of the cause of suffering at the age of

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| (1) 31 (thirty-one) years | (2) 30 (thirty) years |
| (3) 29 (twenty-nine) years | (4) 28 (twenty-eight) years |

सिद्धत्थ ने जब दुख के कारण की खोज में गृहत्याग किया तब उनकी आयु थी

- | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| (1) 31 (इकतीस) वर्ष | (2) 30 (तीस) वर्ष | (3) 29 (उन्तीस) वर्ष | (4) 28 (अट्ठाईस) वर्ष |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|

63. Child Siddhattha was brought up by

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) his real mother | (2) his father's sister |
| (3) his mother's sister | (4) his father's maid servant |

शिशु सिद्धत्थ का लालन-पालन किनके द्वारा हुआ?

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| (1) उनकी सगी माता | (2) उनके पिता की बहन (फूफी/बुआ) |
| (3) उनकी माँ की बहन (मौसी) | (4) उनके पिता की नौकरानी |

64. Siddhattha's mother belonged to

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (1) Koliyan Tribe | (2) Sākiyan Tribe | (3) Mallan Tribe | (4) Vajjian Tribe |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

सिद्धत्थ की माँ किस वंश की थीं?

- (1) कोलिय (2) साकिय (3) मल्लिय (4) वज्जीय

65. Siddhattha renounced his household

- (1) in the dead of night (2) in broad day light
(3) in early hours of morning (4) in the evening

सिद्धत्थ ने अपना घर बार इस समय छोड़ा

- (1) मध्य रात में (2) दिन की खुली रोशनी में
(3) प्रातःकाल की उषा बेला में (4) सायंकाल में

66. Siddhattha had a son before his renunciation, whose name was

- (1) Rohaṇa (2) Rahula (3) Nandula (4) Anula

अभिनिक्रमण (अभिनिष्क्रमण) से पहले सिद्धत्थ को एक पुत्र था, उसका नाम था

- (1) रोहण (2) राहुल (3) नन्दुल (4) अनुल

67. Siddhattha attained Bodhi at the age of

- (1) 35 (thirty-five) years (2) 34 (thirty-four) years
(3) 33 (thirty-three) years (4) 32 (thirty-two) years

सिद्धत्थ ने किस आयु में बोधि प्राप्त की?

- (1) 35 (पैंतीस) वर्ष (2) 34 (चौतीस) वर्ष (3) 33 (तैंतीस) वर्ष (4) 32 (बत्तीस) वर्ष

68. The Buddha's Great Cessation occurred at

- (1) Savatthī (2) Rājagaha (3) Uruvela (4) Kusinārā

गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण इस स्थान पर हुआ

- (1) सावत्थी (2) राजगह (3) उरुवेल (4) कुसीनारा

69. The Buddha delivered his First Sermon at a place located near

- (1) Gaya (2) Baraṇasī (3) Savatthī (4) Vesāli

बुद्ध ने जहाँ अपना पहला उपदेश दिया, उसके पास में स्थित था/थी

- (1) गया (2) बाराणसी (3) सावत्थी (4) वेसाली

70. The Four Noble Truths are included in the Buddha's Sermon known as

- (1) Mahāparinibbāna Sermon (2) Dhamma-cakka Sermon
(3) Jetavana Sermons (4) Veluvana Sermons

चार अरिय सच्च बुद्ध के जिस उपदेश के अन्तर्गत सम्मिलित हैं उसका नाम था

- (1) महापरिनिब्बान उपदेश (2) धम्मचक्र उपदेश
(3) जेतवन उपदेश (4) वेळवन उपदेश

71. The name of the great physician of the Buddhist Saṅgha, was

- (1) Jīvaka Komārabhacca (2) Devahita Brāhmaṇa
(3) Upaka (4) Rummaka

बौद्ध संघ के महान चिकित्सक का नाम था

- (1) जीवक कोमारभच्च (2) देवहित ब्राह्मण (3) उपक (4) रुम्मक

72. The First Buddhist Council (Paṭhamā Saṅgīti) was held under the patronage of

- (1) King Bimbisāra (2) King Ajātasattu
(3) King Pasenadi (4) King Udayana

प्रथम बौद्ध संगीति (पठमा संगीति) किस राजा के संरक्षण में हुई थी?

- (1) राजा बिम्बिसार (2) राजा अजातसत्तु (3) राजा पसेनदि (4) राजा उदयन

73. The number of delegates nominated by Mahākassapa to the First Buddhist Council was

- (1) 496 (four hundred ninety-six) (2) 497 (four hundred ninety-seven)
(3) 498 (four hundred ninety-eight) (4) 499 (four hundred ninety-nine)

प्रथम बौद्ध संगीति में महाकस्सप के द्वारा कितने प्रतिनिधि नामित किये गये थे?

- (1) 496 (चार सौ छियानबे) (2) 497 (चार सौ सत्तानबे)
(3) 498 (चार सौ अट्टानबे) (4) 499 (चार सौ निन्नानबे)

74. The name of the Buddhist Monk who helped in the compilation of the Vinayic rules, was

- (1) Ānanda (2) Upāli (3) Mahānāma (4) Subhadda

विनय सम्बन्धी नियमों के संकलन में जिस बौद्ध भिक्षु ने सहायता की उसका नाम था

- (1) आनन्द (2) उपालि (3) महानाम (4) सुभद

75. The number of Monks who participated in the Second Buddhist Council, was

- (1) 500 (five hundred) (2) 600 (six hundred)
(3) 700 (seven hundred) (4) 800 (eight hundred)

द्वितीय बौद्ध संगीति में कितने भिक्खु सम्मिलित हुए?

- (1) 500 (पाँच सौ) (2) 600 (छः सौ) (3) 700 (सात सौ) (4) 800 (आठ सौ)

76. The Third Buddhist Council was presided over by

- (1) Yasa Kakāṇḍaputta (2) Revata Sāṇavāsī
(3) Moggaliputta Tissa (4) Mahadeva

तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किन्होंने की?

- (1) यस काकंडपुत्त (2) रेवत साणवासी (3) मोग्गलिपुत्त तिस्स (4) महादेव

77. The number of Gatis that a Mahāpurisa endowed with thirty-two Mahāpurisa-lakkhaṇas attains, is

- (1) 5 (five) (2) 4 (four) (3) 3 (three) (4) 2 (two)

बत्तीस महापुरिसलक्खणों से युक्त महापुरिस की जितनी गतियाँ होती हैं, उनकी संख्या है

- (1) 5 (पाँच) (2) 4 (चार) (3) 3 (तीन) (4) 2 (दो)

78. Pokkharasāti Brāhmaṇa was granted land by the King named

- (1) Bimbisāra (2) Ajātasattu (3) Pasenadi (4) Virudabha

पोक्खरसाति ब्राह्मण को जिस राजा के द्वारा भूमिदान किया गया था, उसका नाम था

- (1) बिम्बिसार (2) अजातसत्तु (3) पसेनदि (4) विरूडभ

79. In the Aṃbapāṭha Sutta, the Gautam Buddha is reported to have been accompanied with

- (1) 700 (seven hundred) monks (2) 500 (five hundred) monks
(3) 300 (three hundred) monks (4) 200 (two hundred) monks

अंबट्ट सुत्त में बताया गया है कि उस प्रवास में गौतम बुद्ध के साथ जितने भिक्खु थे, उनकी संख्या थी

- (1) 700 (सात सौ) (2) 500 (पाँच सौ) (3) 300 (तीन सौ) (4) 200 (दो सौ)

80. According to the Ambaṭṭha Sutta, the descendents of Okkāka are

- (1) Sakiyas (2) Koliyas (3) Mallas (4) Moriyas

अंबट्ट के अनुसार, ओक्काक के वंशज हैं

- (1) साकिय (2) कोलिय (3) मल्ल (4) मोरिय

81. The Gautam Buddha quotes the Gāthā which begins with "Khattiyo Setṭho Jāne Tasmim" from

- (1) Sakko Devanaṃ Indo (2) Maha Brahmā
(3) Brahma Saḥampati (4) Brahmā Divampati

गौतम बुद्ध "खत्तियो सेट्ठो जने तस्मिं" से प्रारम्भ होने वाली जिस गाथा को उद्धृत करते हैं, वह जिसकी है, वह है

- (1) सक्को देवानं इन्दो (2) महा ब्रह्मा (3) ब्रह्मा सहंपति (4) ब्रह्मा दिवंपति

82. While in conversation with the Lord Buddha, Ambaṭṭha used five terms to despise the Samaṇas; the term Muṇḍaka was

- (1) the first one (2) the last one (3) the middle one (4) the fourth one

भगवान् बुद्ध के साथ बातचीत में अंबट्ट ने ऐसे पाँच पदों का प्रयोग किया, जिनसे समणों के प्रति अपमान व्यक्त हो। उमें मुण्डक था

- (1) प्रथम (2) अन्तिम (3) मध्यम (4) चौथा

83. Out of thirty-two Mahapurisa-lakkhaṇas on the body of the Buddha, Pokkharasāti Brāhmaṇa could easily see

- (1) 28 (twenty-eight) (2) 29 (twenty-nine)
(3) 30 (thirty) (4) 31 (thirty-one)

भगवान् बुद्ध के शरीर पर पाये जाने वाले बत्तीस महापुरिस लक्षणों में से जितने पोक्खरसाति ब्राह्मण आसानी देख पाया उनकी संख्या थी

- (1) 28 (अट्ठाइस) (2) 29 (उन्तीस) (3) 30 (तीस) (4) 31 (इकतीस)

84. The Carāṇa (spiritual practice) encompasses

- (1) one Jhāna (2) two Jhānas (3) three Jhānas (4) four Jhānas

चरण (आध्यात्मिक चर्या) में समाहित होते हैं

- (1) एक ज्ञान (2) दो ज्ञान (3) तीन ज्ञान (4) चार ज्ञान

85. In the Dutiya Jhāna, a pair of two components of Jhāna are dropped out. Identify the dropped out pair

- (1) Pīti-sukha (2) Vitakka-vicāra (3) Samādhi-pīti (4) Samādhi-sukha

दुतिय ज्ञान में, ज्ञान के अंगों का एक जोड़ा छोड़ दिया जाता है, उस छोड़ दिये गये जोड़े की पहचान कीजिये

- (1) पीति-सुख (2) वितक-विचार (3) समाधि-पीति (4) समाधि-सुख

86. Out of the four Apāyamukhas, described in the Ambaṭṭha Sutta, the serial order of the one with the distinction ... Cātumahāpathe catudvāraṃ agaraṃ karitva acchati...is

- (1) the first one (2) the second one

- (3) the third one (4) the fourth one

अंबट्ट सुत्त में जो चार अपायमुख वर्णित हैं, उनमें से जिसकी पहचान ... चातुमहापथे चतुद्वारं अगारं करित्वा अच्छति...है, उसकी क्रम संख्या है

- (1) प्रथम (2) द्वितीय (3) तृतीय (4) चौथा

87. After having taken food offered by Pokkharasāti, the Lord Buddha related Anupubbi Kathā to him which included Nikkhamme Ānisaṃsaṃ as

- (1) the first one (2) the last one

- (3) the middle one (4) the second one

पोक्खरसाति द्वारा दिये गये भोजन को ग्रहण करने के बाद, भगवान् बुद्ध ने अनुपुब्बी कथा बताई, जिसमें नेक्खम्भे आनिसंसं का क्रम था

- (1) प्रथम (2) अन्तिम (3) मध्यम (4) द्वितीय

88. Identify the concluding words of the Aṃbaṭṭha Sutta from the following ones as found at the end of the Suttas

- (1) Bhikkhū Bhagavato Bhāsitam Abhinandum ti
(2) Kalyāṇam Vuccati Brahmaṇāti
(3) Bhagavā Uṭṭhāya Āsanā Pakkāmīti
(4) Pabbajita Bhagavato Bhāsitam Abhinandum ti

सुत्तों के अन्त में पाये जाने वाले वचनों में अंबट्ट सुत्त वाले वचन की पहचान कीजिये

- (1) भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति (2) कल्याणं वुच्चति ब्राह्मणाति
(3) भगवा उट्ठाय आसना पक्कामिती (4) पब्बजिता भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति

89. The story of Siṃgāla occurred at

- (1) Vesālī (2) Sāvattihī (3) Pāvā (4) Rājagaha

सिंगाल की कथा जिस स्थान पर घटी, उसका नाम था

- (1) वेसाली (2) सावत्थी (3) पावा (4) राजगह

90. Siṃgāla was a

- (1) Brāhmaṇa-putta (2) Khattiya-putta
(3) Gahapati-putta (4) Sudda-putta

सिंगाल की पहचान थी

- (1) ब्राह्मण-पुत्र (2) खत्तिय-पुत्र (3) गहपति-पुत्र (4) सुद-पुत्र

91. While saluting directions, Siṃgāla was

- (1) wet-clothed (2) dry-clothed
(3) half wet-half dry clothed (4) unclothed (naked)

दिशाओं को प्रणाम करता हुआ सिंगाल था

- (1) गीले-कपड़ों में (2) सूखे कपड़ों में
(3) आधे गीले-आधे सूखे कपड़ों में (4) बिना कपड़ों के (नंगा)

92. The first direction that Siṃgāla saluted, was

- (1) Uttara Disā (2) Puratthima Disā
(3) Dakkhina Disā (4) Pacchima Disā

सिंगाल ने जिस दिशा को सबसे पहले प्रणाम किया, वह थी

- (1) उत्तरा दिशा (2) पुरत्थिमा दिशा (3) दक्खिणा दिशा (4) पश्चिमा दिशा

93. While instructing Siṃgāla, the Lord Buddha referred to Ariyassa Vinaya. By Ariyassa Vinaya he meant

- (1) the Vinaya (code of conduct) of the Aryan Race
(2) the Vinaya of the Lords (land-owning class)
(3) The Vinaya of the Sotāpanna (stream-reacher) and those of higher spiritual attainment
(4) the Vinaya of the Putthujjana (the non-initiate)

सिंगाल को उपदेश देते हुए भगवान् बुद्ध ने अरियस्स विनय का सन्दर्भ बताया। यहाँ अरियस्स विनय से बुद्ध का तात्पर्य है

- (1) आर्य प्रजाति का विनय (2) भूमिपतियों का विनय
(3) सोतापन्न एवं उनसे ऊँचे सन्तों का विनय (4) पुथुज्जन का विनय

94. Among the four Kamma-Kilesas, the third one is

- (1) Kāmesu Micchācāro (2) Adinnādānaṃ
(3) Pāṇātipāto (4) Musāvādo

चार कम्मकिलेसों में जो तीसरा है, उसका नाम है

- (1) कामेसु मिच्छाचारो (2) अदिन्नादानं (3) पाणातिपातो (4) मुसावादो

95. Among the Catūhi thānehi pāpakammāni, the last one is

- (1) Bhayāgatim gacchati (2) Chandāgatim gacchati
(3) Dosāgatim gacchati (4) Mohāgatim gacchati

चतूहि ठानेहि पापकम्मानी में जो अन्तिम है, उसका नाम है

- (1) भयागतिं गच्छति (2) छन्दागतिं गच्छति (3) दोसागतिं गच्छति (4) मोहागतिं गच्छति

96. The number of Bhogānaṃ Apāyamukhāni, is

- (1) 3 (three) (2) 4 (four) (3) 5 (five) (4) 6 (six)

भोगानं अपायमुखानि की संख्या है

- (1) 3 (तीन) (2) 4 (चार) (3) 5 (पाँच) (4) 6 (छः)

97. Among the Bhogānaṃ Apāyamukhāni, the first one happens to be

- (1) Ālasyānuyogo
(2) Pāpamittānuyogo
(3) Jūtappamādānuyogo
(4) Surāmerayamajjappamādaṭṭhānānuyogo

भोगानं अपायमुखानि में, प्रथम है

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| (1) आलस्यानुयोगो | (2) पापमित्तानुयोगो |
| (3) जूतप्पमादानुयोगो | (4) सुरामरयमज्जप्पमादद्धानानुयोगो |

98. Among the Six Bhogānaṃ Apāyamukhani, the last one happens to be

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) Ālasyānuyogo | (2) Pāpamittānuyogo |
| (3) Jūtappamādānuyogo | (4) Samajjābhicaraṇaṃ |

छः भोगानं अपायमुखानि में, अन्तिम है

- | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (1) आलस्यानुयोगो | (2) पापमित्तानुयोगो | (3) जूतप्पमादानुयोगो | (4) समज्जाभिचरणं |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------|

99. Among the six Ādinavas of Ālasya, the last one happens to be

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| (1) Atipāto ti kammaṃ na karoti | (2) Atisāyaṃ ti kammaṃ na karoti |
| (3) Atiṇhaṃ ti kammaṃ na karoti | (4) Atisītaṃ ti kammaṃ na karoti |

आलस्य के छः आदिनवों में, अन्तिम है

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) अतिपातो ति कम्मं न करोति | (2) अतिसायं ति कम्मं न करोति |
| (3) अतिउण्हं ति कम्मं न करोति | (4) अतिसीतं ति कम्मं न करोति |

100. The number of Suttas compiled under the Mahāvagga of the Suttanipāta is

- | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| (1) 10 (ten) | (2) 11 (eleven) | (3) 12 (twelve) | (4) 13 (thirteen) |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|

सुत्तनिपात के महावग्ग के अन्तर्गत जितने सुत्त संकलित हैं, उनकी संख्या है

- | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| (1) 10 (दस) | (2) 11 (ग्यारह) | (3) 12 (बारह) | (4) 13 (तेरह) |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|

101. The contents of the Pabbajjā Sutta appear to be like a press-reporting prepared and presented by

- (1) the Gautam Buddha himself (2) Bhadanta Ananda
(3) King Bimbisāra (4) King Ajatasattu

पब्बज्जा सुत्त की विषयवस्तु किसी समाचार-रिपोर्टिंग (वार्तापत्रीय वृत्त) की तरह लगती है, जिसको इन्होंने बनाया और प्रस्तुत किया

- (1) गौतम बुद्ध स्वयं (2) भदन्त आनन्द (3) राजा बिम्बिसार (4) राजा अजातसत्तु

102. The term Padhāna in Pabbajā Sutta and Padhāna Sutta stands for

- (1) Nibbāna (2) Pabbajjā (3) Nekkhamma (4) Sāmañña

पब्बज्जा सुत्त और पधान सुत्त में प्रयुक्त पधान पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है?

- (1) निब्बान (2) पब्बज्जा (3) नेक्खम्म (4) सामञ्ज

103. Sundarika Bhāradvāja saw the Gautam Buddha on the bank of a river named

- (1) Gaṅgā (2) Yamunā (3) Sundarika (4) Sarabhū

सुन्दरिक भारद्वाज ने गौतम बुद्ध को जिस नदी के किनारे देखा, उसका नाम था

- (1) गंगा (2) यमुना (3) सुन्दरिका (4) सरभू

104. Five qualifications of "Maccānaṃ idha jīvitam" has been mentioned in the first Gāthā of the Salla Sutta. Name the first one

- (1) Kasiraṃ (2) Parittaṃ (3) Anaññātaṃ (4) Animittaṃ

सल्ल सुत्त की पहली गाथा में "मच्चानं इध जीवितं" की पाँच विशेषतायें गिनायी गई हैं। उनमें पहली का नामोल्लेख कीजिये

- (1) कसिरं (2) परित्तं (3) अनञ्जातं (4) अनिमित्तं

105. In the Vāseṭṭha Sutta, the efforts have been made to define a

- (1) Khattiyo (2) Brāhmaṇo (3) Vesso (4) Suddo

वासेट्ट सुत्त में जिस पद की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है, वह है

- (1) खत्तियो (2) ब्राह्मणो (3) वेस्सो (4) सुट्टो

106. At the end of the delivery of the Vāseṭṭha Sutta, Vāseṭṭha-Bhāradvāja Māṇavā request the Lord Buddha to treat them as

- (1) Upāsakas (2) Bhikkhus
(3) Sāmaṇeras (4) Titthiyas (Heretics)

वासेट्ट सुत्त की देशना के बाद वासेट्ट भारद्वाज माणवा ने भगवान् बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस रूप में स्वीकार करें

- (1) उपासक (2) भिक्खु
(3) सामणेर (4) तिथिय (अन्य मतावलम्बी)

107. The Ministers (Amaccā) of King Milinda told him about the six Samaṇa/Brahmaṇa Paṇḍitas. Among them Pakudho Kaccāyano was

- (1) the first one (2) the second one
(3) the fourth one (4) the last one

राजा मिलिन्द के मंत्रियों (अमच्चा) ने उसे छः समण/ब्राह्मण पंडितों के विषय में बताया। उनमें पकुधो कच्चायनों का क्रम था

- (1) प्रथम (2) द्वितीय (3) चौथा (4) अन्तिम

108. The name of the capital of King Milinda was

- (1) Takkasilā (2) Sāgala Nagara (3) Purisapura (4) Jālandhara

राजा मिलिन्द की राजधानी का नाम था

- (1) तक्कसिला (2) सागल नगर (3) पुरिसपुर (4) जालन्धर

109. King Milinda had debate with two of the six religious leaders. They happened to be

- (1) Pūraṇo Kassapo and Nigantho Naṭaputto
- (2) Makkhali Gosālo and Nigantho Naṭaputto
- (3) Purano Kassapo and Makkhali Gosalo
- (4) Nigantha Nāṭaputto and Pakudho Kaccāyano

राजा मिलिन्द का शास्त्रार्थ छः धार्मिक नेताओं में से दो के साथ हुआ। वे थे

- (1) पूरणो कस्सपो और निगन्थो नाटपुत्तो
- (2) मक्खलि गोसालो और निगन्थो नाटपुत्तो
- (3) पूरणो कस्सपो और मक्खलि गोसालो
- (4) निगन्थो नाटपुत्तो और पकुधो कच्चायनो

110. The word Bahira in the title of the Bahirakathā denotes

- (1) outside the text of the Milindapaṇho
- (2) beyond the then existing story of Bhikkhu Nagasena and King Milinda
- (3) beyond the theme of the Milindapaṇho
- (4) outside the range of Buddhist Philosophy

बाहिरकथा शीर्षक में बाहिर शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त है, वह है

- (1) मिलिन्दपञ्चो के पाठ के बाहर का
- (2) भिक्खु नागसेन और राजा मिलिन्द की तात्कालिक कथा के बाहर का
- (3) मिलिन्दपञ्चो की विषयवस्तु के बाहर का
- (4) बौद्ध दर्शन के क्षेत्र के बाहर का

111. In reply to King Milinda's question, "Ko Bhante Kassapa, lokam pāleti ti", Pūraṇa Kassapo said

- (1) Ākāso (Sky)
- (2) Tejo (Fire)
- (3) Vāyo (Air)
- (4) Pathavi (Earth)

राजा मिलिन्द के इस प्रश्न “को भन्ते कस्सप, लोकं पालेती ति” के उत्तर में पूरण कस्सपो ने कहा

- (1) आकासो (2) तेजो (3) वायो (4) पथवी

112. In reply to King Milinda's question, "Atthi Bhante Gosāla, Kusalākusalāni kammāni"? Makkhali Gosālo said

- (1) Atthi Kusalākusalāni kammāni
 (2) Natthi Kusalākusalāni kammāni
 (3) Atthi ca Natthi ca Kusalākusalāni kammāni
 (4) Neva ca Atthi Neva ca Natthi Kusalākusalāni kammani

राजा मिलिन्द के इस प्रश्न “अत्थि भन्ते गोसाल, कुसलाकुसलानि कम्मनि” के पूछे जाने पर मक्खलि गोसालो ने कहा

- (1) अत्थि कुसलाकुसलानि कम्मनि
 (2) नत्थि कुसलाकुसलानि कम्मनि
 (3) अत्थि च नत्थि च कुसलाकुसलानि कम्मनि
 (4) नेव च अत्थि नेव च नत्थि कुसलाकुसलानि कम्मनि

113. The whole Jambudīpa remained devoid (Suñño) of worthwhile Paṇḍitas for as many as

- (1) ten years (2) eleven years (3) twelve years (4) thirteen years

सम्पूर्ण जम्बुदीप जितने साल पंडितों से शून्य था, वह संख्या है

- (1) दस साल (2) ग्यारह साल (3) बारह साल (4) तेरह साल

114. Āyasma Assagutto made Arahantas assemble at

- (1) Yugandharamatthka (2) Yugandharapabbata
 (3) Rakkhitatala (4) Ketumatī Vimāna

आयस्मा अस्सगुत्त ने अरहन्तो को जिस स्थान पर एकत्रित किया, वह था

- (1) युगन्धरमत्थक (2) युगन्धरपब्बत (3) रक्खिततल (4) केतुमती विमान

115. Sakko Devanamindo approached Mahasena to take birth in Manussaloka. Mahasena was

- (1) a Deva (2) a Devaputto
(3) Sakkassa Anujo (younger brother) (4) Sakkassa Aggajo (elder brother)

सक्को देवानमिन्दो ने महासेन से मनुस्सलोक में जन्म लेने को कहा। महासेन थे

- (1) एक देव (2) एक देवपुत्तो (3) सक्क के अनुज (4) सक्क के अग्रज

116. In the Milindapañho, the Lakkhaṇapañho is preceded by

- (1) Vimaticchedanapañho (2) Mendakapañho
(3) Anumanapañho (4) Bahirakatha

मिलिन्दपञ्हो ग्रन्थ में लक्खणपञ्हो से पहले जो परिच्छेद आता है, उसका नाम है

- (1) विमतिच्छेदनपञ्हो (2) मेण्डकपञ्हो (3) अनुमानपञ्हो (4) बाहिरकथा

117. "Paramatthato panettha puggalo nūpalabbhati" are the words of

- (1) King Milinda (2) Bhadanta Nāgasena
(3) Bhikkhuni Vajira (4) Bhikkhuni Khemā

“परमत्थतो पनेत्थ पुगलो नूपलब्भति” शब्द जिसके हैं, वह है

- (1) राजा मिलिन्द (2) भदन्त नागसेन (3) भिक्खुनी वजिरा (4) भिक्खुनी खेमा

118. "Yathā hi aṃgasam̐bhārā hoti saddo ratho iti" is quoted in the Milindapañho from the text

- (1) Samyutta Nikāya (2) Dīgha Nikāya
(3) Majjhima Nikāya (4) Sutta Nipāta

“यथा हि अंगसंभारा होति सदो रथो इति” मिलिन्दपञ्चो में जिस ग्रन्थ से उद्धृत है, उसका नाम है

- (1) संयुक्त निकाय (2) दीघ निकाय (3) मज्झिम निकाय (4) सुत्त निकाय

119. Among the four Nissayas, the first one happens to be

- (1) Pindapāta (2) Cīvara
(3) Senāsana (4) Gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara

चार निस्सयों में से प्रथम है

- (1) पिण्डपात (2) चीवर
(3) सेनासन (4) गिलान-पच्चय-भेसज-परिक्खार

120. Among the five Antaraya Kammās, the second one happens to be

- (1) Arahanta-vadha (2) Mātu-vadha
(3) Pitu-vadha (4) Saṅghabheda

पाँच अन्तराय कर्मों में जो क्रम से दूसरा है, वह है

- (1) अरहन्त-वध (2) मातु-वध (3) पितु-वध (4) संघभेद

121. After dialogue with Bhikkhu Nāgasena, Anantakāyo, one of the officials of King Milinda became

- (1) Buddhist layman (Upāsaka) (2) Bhikkhu
(3) Sāmaṇera (4) Sikkhamāna

भिक्षु नागसेन के साथ बातचीत होने के बाद, अनन्तकायो, राजा मिलिन्द का एक अधिकारी, जो बन गया

- (1) बौद्ध उपासक (2) भिक्षु (3) सामणेरे (4) सिक्खमान

122. In the context of the two Antās (ends, extremes) denounced by the Lord Buddha in his First Sermon, two qualifications are common to both (ends). These are

- (1) Hino-gammo (2) Gammo-pothujjaniko
(3) Pothujjaniko-dukkho (4) Anariyo-anatthasamhito

दो अन्तों के सन्दर्भ में, जिनकी भर्त्सना भगवान् बुद्ध ने अपनी पहली देशना में की थी, दो ऐसे विशेषण पद हैं जो दोनों (अन्तों) में सामान्य हैं। वे हैं

- (1) हीनो-गम्मो (2) गम्मो-पोथुज्जनिको
(3) पोथुज्जनिको-दुक्खो (4) अनरियो-अनत्थसंहितो

123. The Majjhimā Paṭipadā has been described by the Lord Buddha in six ways. The first description happens to be

- (1) Nānakaraṇī (2) Cakkhukaraṇī
(3) Abhiññāya Saṃvattati (4) Nibbānāya Saṃvattati

भगवान् बुद्ध ने मज्झिम पटिपदा का वर्णन छः तरह से किया है। उनमें से पहला वर्णन है

- (1) जाणकरणी (2) चक्खुकरणी (3) अभिञ्जाय संवत्तति (4) निब्बानाय संवत्तति

124. The Ariyo Aṭṭhaṅgiko Maggo has eight constituents. The sixth among them happens to be

- (1) Samma Ājīvo (2) Sammā Saṅkappo
(3) Sammā Sati (4) Sammā Vayamo

अरियो अट्ठंगिको मग्गो के आठ अंग हैं। उनमें से छठा (अंग) है

- (1) सम्मा आजीवो (2) सम्मा संकप्पो (3) सम्मा सति (4) सम्मा वायामो

125. Eight items have been categorized as Dukkha in the definition of the Dukkha Ariyasacca. The first among them happens to be

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Maraṇaṃ pi dukkhaṃ | (2) Vyādhī pi dukkha |
| (3) Jati pi dukkha | (4) Jarā pi dukkha |

दुःख अरियसच्च की परिभाषा में आठ बातों को दुःख के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनमें से पहला है

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| (1) मरणं पि दुःखं | (2) व्याधि पि दुःखो | (3) जाति पि दुःखा | (4) जरा पि दुःखा |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|

126. While defining the Dukkha Samudaya Ariyasacca, the Lord Buddha speaks of

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| (1) six kinds of Tanhā (desire) | (2) five kinds of Tanhā |
| (3) four kinds of Tanhā | (4) three kinds of Tanhā |

दुःख समुदय अरियसच्च को परिभाषित करते समय, भगवान् बुद्ध बताते हैं

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) छः प्रकार की तण्हा | (2) पाँच प्रकार की तण्हा |
| (3) चार प्रकार की तण्हा | (4) तीन प्रकार की तण्हा |

127. In the definition of the Dukkhanirodha Ariyasacca, release from Tanhā has been put in six ways. The last among them happens to be

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) Tassā yeva tanhāya mutti | (2) Tassā yeva tanhāya anālayo |
| (3) Tassā yeva tanhāya cāgo | (4) Tassa yeva tanhāya paṭinissaggo |

दुःखनिरोध अरियसच्च की परिभाषा में तण्हा से छुटकारा को छः प्रकार से कहा गया है। उनमें अन्तिम है

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| (1) तस्सा येव तण्हाय मुत्ति | (2) तस्सा येव तण्हाय अनालयो |
| (3) तस्सा येव तण्हाय चागो | (4) तस्सा येव तण्हाय पटिनिस्सग्गो |

128. After the delivery of the Dhamma-cakka-pavattana Discourse, the Dhamma-cakkhu (Dhamma-eye) first appeared/originated to

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) Āyasma Vappo | (2) Āyasma Bhaddiyo |
| (3) Āyasma Koṇḍañño | (4) Āyasma Mahānāmo |

धम्मचक्कपवत्तन देशना के बाद सबसे पहले जिसे धम्मचक्खु प्राप्त हुआ, वह थे

- (1) आयस्मा वप्पो (2) आयस्मा भदियो (3) आयस्मा कोण्डञ्जो (4) आयस्मा महानामो

129. After the delivery of the Dhamma-cakka-pavattana Discourse, the Dhamma-cakkhu last dawned upon

- (1) Āyasma Koṇḍañño (2) Āyasma Assaji
(3) Ayasma Vappo (4) Āyasma Mahanāmo

धम्मचक्कपवत्तन देशना के बाद, सबसे बाद में जिसे धम्मचक्खु प्राप्त हुआ, वह थे

- (1) आयस्मा कोण्डञ्जो (2) आयस्मा अस्सजि (3) आयस्मा वप्पो (4) आयस्मा महानामो

130. In the context of all the four Ariyasaccas, the Buddha uses appropriate terms to explain their respective objects of achievements. To explain Dukkha Ariyasacca, the phrase He uses is

- (1) Pahatabbamaṃ (2) Pariññeyyamaṃ
(3) Sacchikātabbamaṃ (4) Bhāvetabbamaṃ

सभी चार आर्यसत्त्यों के सन्दर्भ में, बुद्ध उन सत्त्यों की उपलब्धि के विषय में उपयुक्त पदों का प्रयोग करते हैं। दुःख अरियसच्च की व्याख्या करने के लिये जिस पद का वे प्रयोग करते हैं, वह है

- (1) पहातब्बं (2) परिञ्जेय्यं (3) सच्छिकातब्बं (4) भावेतब्बं

131. In the context of the four Ariyasaccas, the Buddha uses appropriate terms to explain their respective achievements. To explain Dukkhanirodhagāmaṇi Paṭipadā Ariyasacca He uses

- (1) Bhāvitamaṃ (2) Sacchikatamaṃ (3) Pahīnāmaṃ (4) Pariññātamaṃ

सभी चार आर्यसत्त्यों के सन्दर्भ में, बुद्ध उन सत्त्यों की उपलब्धि के विषय में उपयुक्त पदों का प्रयोग करते हैं। दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्च की व्याख्या करने में जिस पद का वे प्रयोग करते हैं, वह है

- (1) भावितं (2) सच्छिकतं (3) पहीनं (4) परिञ्जातं

132. The Paṭiccasamuppāda Doctrine is intrinsically related with the Ariyasacca known as

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| (1) Dukkha Ariyasacca | (2) Dukkha-samudaya Ariyasacca |
| (3) Dikkha-nirodha Ariyasacca | (4) Dukkha-nirodhamagga Ariyasacca |

पटिच्चसमुप्पाद सिद्धान्त जिस अरियसच्च के साथ आन्तरिक रूप में जुड़ा है, उसका नाम है

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) दुःख अरियसच्च | (2) दुःख-समुदय अरियसच्च |
| (3) दुःख-निरोध अरियसच्च | (4) दुःख-निरोधमगग अरियसच्च |

133. The event that took place immediately before the Dhamma-cakka-pavattana Desanā, is known as

- (1) the Lord Buddha's decision to deliver Dhammadesanā, on the request of Brahma Sahampati
- (2) the knowledge to the Buddha that Alāra Kalāma and Uddaka Ramaputta had passed away
- (3) the face to face meeting with Upaka Ājīvaka
- (4) the arrival of the Lord Buddha at Isi-pattana Migadava

धम्मचक्रपवत्तन देसना के ठीक पहले जो घटना घटी, वह थी

- (1) ब्रह्मा सहंपति की प्रार्थना पर भगवान् बुद्ध का धम्मदेसना का निर्णय
- (2) आळार कालाम और उदक रामपुत्त गुजर गये हैं—यह जानकारी
- (3) उपक आजीवक से आमने-सामने भेंट
- (4) भगवान् बुद्ध का इसिपत्तन मिगदाव पहुँचना

134. The event that took place immediately after the Dhamma-cakka-pavattana Desanā, is known as

- (1) the Lord Buddha's Anatta-pariyāya Desanā
- (2) the entry of Jaṭā-kassapa and Nadi-kassapa to the Buddhist order
- (3) Yasa's Pabbajjā
- (4) the entry of Uruvela-kassapa to the Buddhist order

धम्मचक्रपवतन देसना के तुरन्त बाद जो घटना घटी, वह थी

- (1) भगवान् बुद्ध की अनतपरियाय देसना (2) जटाकस्सप और नदीकस्सप का संघप्रवेश
(3) यश की पब्बज्जा (4) उरुवेल-कस्सप का संघप्रवेश

135. After the dawning upon of the Dhamma-cakkhu step by step on the Pamcavaggiya Bhikkhus, there existed in the whole world at that point of time as many as

- (1) seven Arahantas (2) six Arahantas
(3) five Arahantas (4) four Arahantas

एक के बाद एक पंचवग्निया भिक्खुओं को धम्मचक्खु मिलने के बाद उस समय पूरे विश्व में जितने अरहन्त थे, उनकी संख्या थी

- (1) सात अरहन्त (2) छः अरहन्त (3) पाँच अरहन्त (4) चार अरहन्त

136. The Balavatāro, one of the Pāli Grammar text, is ascribed to

- (1) Dhammarakkhita Mahathero (2) Dhammakitti Mahāthero
(3) Dhammajoti Mahāthero (4) Dhammadipa Mahāthero

बालावतारो नामक पालि व्याकरण ग्रन्थ जिनकी रचना माना जाता है, उनका नाम था

- (1) धम्मरक्खित महाथेरो (2) धम्मकित्ति महाथेरो (3) धम्मजोति महाथेरो (4) धम्मदीप महाथेरो

137. In the compound word Bālāvatāro, there are two words—Bāla and Avataro. Here the word Bāla means

- (1) hair (2) boy (3) ignorant (4) sand particles

समास-पद बालावतारो में दो शब्द जुड़े हैं—बाल और अवतारो। यहाँ बाल शब्द का अर्थ है

- (1) बाल (केश) (2) बालक (3) मूर्ख, अबोध (4) बालू के कण

138. When two words Loka and Agga undergo Sandhi operation, the Sandhi kind which becomes operative is

- (1) Byañjana Sandhi (2) Sara Sandhi
(3) Niggahita Sandhi (4) Vomissaka Sandhi

जब दो शब्दों लोक और अगग में सन्धि होती है, ऐसी स्थिति में सन्धि का जो प्रकार सक्रिय होता है, वह है

- (1) ब्यञ्जन सन्धि (2) सर सन्धि (3) निगहीत सन्धि (4) वोमिस्सक सन्धि

139. In Pana + ime - Panime, the Sandhi Sutta which operates is known as

- (1) Sarā sare lopam (2) Vā paro asarūpā
(3) Kvacāsavaṇṇam lutte (4) Pubbo ca

पन + इमे = पनिमे सन्धि प्रक्रिया में, जो सन्धि सुत्त कार्य करता है, उसका नाम है

- (1) सरा सरे लोपं (2) वा परो असरूपा (3) क्वासावण्णं लुत्त (4) पुब्बो च

140. In the Sandhi operation, the process of lengthening the Sara (Vowel) is carried by the Sutta known as

- (1) Vā paro Asarūpā (2) Digham
(3) Pubbo ca (4) Kvacāsavaṇṇam lutte

सन्धि प्रक्रिया में सर का दीर्घीकरण जिस सुत्त के द्वारा निष्पन्न होता है, वह है

- (1) वा परो असरूपा (2) दीघं (3) पुब्बो च (4) क्वासावण्णं लुत्त

141. The Sutta that operates in the Sandhi 'Sa Bhikkhu' is known as

- (1) Lopam ca tatrākāro (2) Kvacāsavaṇṇam lutte
(3) Evādissa ri pubbo ca rasso (4) Ivanno yam na vā

'स भिक्खु' सन्धि में जो सुत्त कार्य करता है, उसका नाम है

- (1) लोपं च तत्राकारो (2) कचासवणं लुत्त
(3) एवादिस्स रि पुब्बो च रस्सो (4) इवण्णो यं न वा

142. 'Vaggantam vā vagge' is a Sandhi rule belonging to Sandhi kind known as

- (1) Sara Sandhi (2) Byañjana Sandhi
(3) Niggahīta Sandhi (4) Vomissaka Sandhi

'वगन्तं वा वग्गे' सन्धि नियम जिस सन्धि प्रकार से सम्बन्धित है, उसका नाम है

- (1) सर सन्धि (2) व्यञ्जन सन्धि (3) निगहीत सन्धि (4) वोमिस्सक सन्धि

143. The number of Suttas cited under Vomissaka Sandhi in the Bālāvatāro is

- (1) one (2) two (3) three (4) four

बालावतारो ग्रन्थ में वोमिस्सक सन्धि प्रकार के अन्तर्गत जितने सुत्त संकलित/रचित हैं, उनकी संख्या है

- (1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

144. The word 'Kāraka' means 'doer', i.e., performer of any action. There is one such Kāraka, though listed as a Kāraka by some grammarians, yet does not perform the role of a Kāraka. Identify it

- (1) Kamma-Kāraka (2) Karaṇa-Kāraka
(3) Apadāna-Kāraka (4) Sami-Kāraka

'कारक' शब्द का अर्थ है 'करने वाला', अर्थात् किसी भी कार्य या व्यापार का करने वाला। कुछ वैयाकरणों द्वारा बनाई गई कारकों की सूची में यद्यपि उसका नाम है, फिर भी वह 'कारक' की भूमिका नहीं सम्पन्न करता। उसकी पहचान कीजिये

- (1) कम्म-कारक (2) करण-कारक (3) अपादान-कारक (4) सामि-कारक

145. The number of Kāraḥas recognised by the Bālāvatāro Grammar text is

- (1) five (2) six (3) seven (4) eight

बालावतारो व्याकरण ग्रन्थ ने कितने कारकों को कारक की मान्यता दी है?

- (1) पाँच (2) छः (3) सात (4) आठ

146. In the phrase 'Māsaṃ Maṃsodanaṃ', the Sutta which operates is

- (1) Yaṃ karoti taṃ kammaṃ (2) Kammatthe Dutiyā
(3) Kaladdhānamaccantaṣaṃyoge (4) Kammappacaniyayutte

'मासं मंसोदनं' उपवाक्य में जो सुत्त कार्य करता है, वह है

- (1) यं करोति तं कम्मं (2) कम्मत्थे दुतिया
(3) कालद्धानमच्चन्तसंयोगे (4) कम्मप्पचनीययुत्त

147. In the phrase 'Akkhiṇā Kāṇo', the Sutta which operates is

- (1) Visesaṇe ca (2) Yenaṃgavikāro
(3) Hetvatthe ca (4) Karaṇe Tatiya

'अक्खिना काणो' उपवाक्य में जो सुत्त कार्य करता है, वह है

- (1) विसेसने च (2) येनङ्गविकारो (3) हेत्वत्थे च (4) करणे ततिया

148. In the example 'Sumuttā Mayāṃ tena Mahāsaṃaṇeṇa', the Tatiyā Vibhatti in the word Mahāsaṃaṇeṇa is in the sense of

- (1) Dutiyā Vibhatti (2) Catutthī Vibhatti
(3) Paṃcamaṃ Vibhatti (4) Chatthi Vibhatti

‘सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन’ दृष्टान्त में महासमणेन शब्द में ततिया विभक्ति किस विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है?

- (1) दुतिया विभक्ति (2) चतुर्थी विभक्ति (3) पञ्चमी विभक्ति (4) छट्टी विभक्ति

149. The usage of the Sattamī Vibhatti is clear in all the four examples given below. Now which among them is covered by the Sutta ‘Yena Vādassanā’?

- (1) Game game Manussa (2) Vane vane Sīhā
(3) Jetavane Antarahito (4) Paribbājaka vane Vasanti

अधोलिखित चारों दृष्टान्तों में सत्तमी विभक्ति का प्रयोग स्पष्ट है। उनमें से कौन ‘येन वादस्सनं’ सुत्त की परिधि में आता है?

- (1) गामे गामे मनुस्सा (2) वने वने सीहा
(3) जेतवने अन्तरहितो (4) परिब्बाजका वने वसन्ति

150. The usage of Chatthī Vibhatti is found in all the four examples given below. Now which among them is covered by the Sutta ‘Anadare ca’?

- (1) Jananam padeso (2) Arahantānam Ānando Paṇḍitatamo
(3) Pathikānam Dhāvaṃ Sighatamo (4) Darakānam Rudantānam Pabbaji

अधोलिखित चारों दृष्टान्तों में छट्टी विभक्ति का प्रयोग मिलता है। उनमें से कौन ‘अनादरे च’ सुत्त की परिधि में आता है?

- (1) जनानं पदेसो (2) अरहन्तानं आनन्दो पण्डिततमो
(3) पथिकानं धावं सीघतमो (4) दारकानं रुदन्तानं पब्बजि

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

(इस पुस्तिका के प्रथम आवरण-पृष्ठ पर तथा उत्तर-पत्र के दोनों पृष्ठों पर केवल नीली या काली बाल-प्वाइंट पेन से ही लिखें)

1. प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही देख लें कि प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष-निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लें।
2. परीक्षा भवन में लिफाफा रहित प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त, लिखा या सादा कोई भी खुला कागज साथ में न लायें।
3. उत्तर-पत्र अलग से दिया गया है। इसे न तो मोड़ें और न ही विकृत करें। दूसरा उत्तर-पत्र नहीं दिया जायेगा, केवल उत्तर-पत्र का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
4. अपना अनुक्रमांक तथा उत्तर-पत्र का क्रमांक प्रथम आवरण-पृष्ठ पर पेन से निर्धारित स्थान पर लिखें।
5. उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर पेन से अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर लिखें तथा नीचे दिये वृत्तों को गाढ़ा कर दें। जहाँ-जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक तथा सेट का नम्बर उचित स्थानों पर लिखें।
6. ओ० एम० आर० पत्र पर अनुक्रमांक संख्या, प्रश्न-पुस्तिका संख्या व सेट संख्या (यदि कोई हो) तथा प्रश्न-पुस्तिका पर अनुक्रमांक सं० और ओ० एम० आर० पत्र सं० की प्रविष्टियों में उपरिलेखन की अनुमति नहीं है।
7. उपर्युक्त प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये अन्यथा यह एक अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा।
8. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर के लिये आपको उत्तर-पत्र की सम्बन्धित पंक्ति के सामने दिये गये वृत्त को उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों के अनुसार पेन से गाढ़ा करना है।
9. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये केवल एक ही वृत्त को गाढ़ा करें। एक से अधिक वृत्तों को गाढ़ा करने पर अथवा एक वृत्त को अपूर्ण भरने पर वह उत्तर गलत माना जायेगा।
10. ध्यान दें कि एक बार स्याही द्वारा अंकित उत्तर बदला नहीं जा सकता है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो सम्बन्धित पंक्ति के सामने दिये गये सभी वृत्तों को खाली छोड़ दें। ऐसे प्रश्नों पर शून्य अंक दिये जायेंगे।
11. रफ़ कार्य के लिये प्रश्न-पुस्तिका के मुखपृष्ठ के अन्दर वाले पृष्ठ तथा अंतिम पृष्ठ का प्रयोग करें।
12. परीक्षा के उपरान्त केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्र परीक्षा भवन में जमा कर दें।
13. परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
14. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दंड का/की, भागी होगा/होगी।